

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516]

नई दिल्ली, संगलशर, अस्तुबर 19, 1971/अश्विन 27, 1893

No. 516]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1971/ASVINA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th October 1971

S.O. 4029.—In partial modification of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Order No. S.O. 3002/15/IDRA/71, dated the 12th August, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), dated the 12th August, 1971, the Central Government hereby appoints Shri N. Majumdar, 9-Motilal Nehru Road, Calcutta, as chairman of body of persons appointed to enquire into the affairs of the industrial undertaking known as Shri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., P.O. Konnagar (Dist. Hooghly), in the place of Shri T.P. Chakravarti.

[No. 9(18)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt Secy

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4029.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) में प्रकाशित औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 3002/15/आई०डी०आर०ए०/71, दिनांक 12 अगस्त, 1971 में आंशिक आशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री टी० पी० चक्रवर्ती के स्थान पर श्री एन० माजुमदार, 9—मोतीलाल नेहरू रोड, काकता, को श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, पी० ब्रो० कं नगर (जिला हुगली) नामक औद्योगिक उपश्रम के मासों की जांच के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निकाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 9(18)/लाई० प ल०/71]

एस० के० सहगल,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।